

(अनुलग्नक A)

कृषि ऋणों पर प्रभावी ब्याज दरें

क्र.	विवरण	ब्याज दर
1	फसल उत्पादन हेतु कार्यशील पूँजी (किसान क्रेडिट कार्ड)	
	(i) ₹3.00 लाख तक की ऋण सीमा के लिये जहाँ Subvention उपलब्ध हों (किसी भी अन्य स्वीकृत सीमा को छोड़कर एवं केवल नियमित खातों हेतु)	
	अ. फसल उत्पादन हेतु (जहाँ Subvention उपलब्ध हों)	07.00%
	ब. फसल कटाई पश्चात व्ययों/उपभोग आवश्यकता एवं फार्म आस्तियों के रखरखाव हेतु	BPLR से 2.00 प्रतिशत कम, न्यूनतम 12.40% p.a.
	(ii) ₹ 3.00 लाख से अधिक ऋण सीमा के लिये –	
	अ. फसल उत्पादन हेतु	
	अ. ₹3.00 लाख तक की ऋण सीमा हेतु (जहाँ Subvention उपलब्ध हों)	07.00%
	ब. ₹3.00 लाख से अधिक की ऋण सीमा	BPLR से 2.00 प्रतिशत कम, न्यूनतम 12.40% p.a.
	ब. फसल कटाई पश्चात व्ययों/उपभोग आवश्यकता एवं फार्म आस्तियों के रखरखाव हेतु	BPLR से 2.00 प्रतिशत कम, न्यूनतम 12.40% p.a.
2	पशुपालन और मत्स्य पालन गतिविधियों हेतु कार्यशील पूँजी ऋण सीमा (किसान क्रेडिट कार्ड)	
	(i) ₹2.00 लाख तक की ऋण सीमा के लिये जहाँ Subvention उपलब्ध हों (किसी भी अन्य स्वीकृत सीमा को छोड़कर एवं केवल नियमित खातों हेतु)	07.00%
	(ii) ₹2.00 लाख से अधिक ऋण सीमा के लिये –	BPLR से 2.00 प्रतिशत कम, न्यूनतम 12.40% p.a.
3	ऐसे कृषक जिन्होंने केसीसी फसली ऋण एवं पशुपालन गतिविधियों, दोनों प्रयोजन हेतु केसीसी प्राप्त किया हैं, तो दोनों प्रयोजन हेतु प्रदत्त ऋण सीमा ₹ 3.00 लाख तक ही ब्याज सहायता (Interest Subvention) उपलब्ध होगी। अतः उक्त दोनों खातों में Customer ID एक ही होना सुनिश्चित करें। ऐसे कृषकों पर ब्याज दर निम्नानुसार होगी –	
	(i) ₹3.00 लाख तक की कुल ऋण सीमा हेतु (फसल उत्पादन एवं पशु पालन गतिविधियों हेतु अधिकतम ₹2.00 लाख तक) जहाँ Subvention उपलब्ध हो	07.00%

	(ii)	₹3.00 लाख से अधिक की कुल ऋण सीमा (पशुपालन गतिविधियों हेतु प्रदत्त ₹2.00 लाख से अधिक की ऋण सीमा) – नियमित खातों के लिये, उपभोग आवश्यकता एवं फार्म आस्तियों के रखरखाव व्ययों सहित	BPLR से 2.00 प्रतिशत कम, न्यूनतम 12.40% p.a.
नोट :- ऋणी कृषक को ब्याज अनुदान सहायता अल्पावधि ऋणों (फसली ऋण और पशुपालन और मत्स्य पालन गतिविधियों के लिए कार्यशील पूंजी ऋण) राशि ₹ 3.00 लाख तक उपलब्ध होगी एवं अधिकतम ₹2.00 लाख रु. प्रति किसान तक के पशुपालन और मत्स्य पालन गतिविधियों के लिए कार्यशील पूंजी ऋण हेतु ब्याज सहायता उपलब्ध होगी। ऋणी कृषक को फसली ऋण हेतु जारी केसीसी एवं पशुपालन और मत्स्य पालन गतिविधियों हेतु जारी केसीसी, दोनों सीमाओं को सम्मिलित करने पर ब्याज सहायता अधिकतम ₹ 3.00 लाख तक ही उपलब्ध होगी।			
4		अन्य कृषि मियादी ऋण/अल्पावधि ऋण/कार्यशील पूंजी [कृषि यंत्रीकरण (ट्रेक्टर, हार्वेस्टर, रोटोवेटर, आदि)/लघु सिंचाई परियोजना/कृषि सम्बद्ध गतिविधियाँ/कृषि सहायक गतिविधि/कृषि आधारभूत संरचना आदि हेतु]	BPLR से 1.00 प्रतिशत कम, न्यूनतम 13.40% p.a.
5		कृषकों हेतु वेयरहाउस रसीदों के विरुद्ध ऋण	
6		ग्रामीण भण्डारण/कोल्ड स्टोरेज	
7		किसान घर ऋण योजना (Kisan Ghar Scheme)	
8		समृद्धि कृषि सावधि ऋण योजना (Samriddhi Krishi Sawadhi Rin Yojana)	
9		कृषि बंधक ऋण योजना (Agriculture Mortgage Loan Scheme)	
10		शासकीय प्रायोजित योजनाएँ –	
	अ.	नाबार्ड की एग्री क्लीनिक एग्री बिजनेस योजना (NABARD ACABC),	
	ब.	नाबार्ड की एकीकृत कृषि विपणन आधारभूत योजना (NABARD AMI),	
	स.	कस्टम हायरिंग योजना, (Custom Hiring Scheme),	
	द.	प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PM FME Scheme),	
	इ.	राष्ट्रीय पशुधन योजना (NLM),	
	फ.	प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM KUSUM Scheme), आदि।	
11		कृषि डायमंड बंधक ऋण योजना – (Agriculture Diamond Mortgage Loan Scheme) -	BPLR से 3.00 प्रतिशत कम, न्यूनतम 11.40% p.a.

12	एकीकृत पशुपालन ऋण योजना अंतर्गत सावधि ऋण एवं सावधि ऋण सह केसीसी घटक हेतु (जहां Subvention उपलब्ध होगा वहाँ ब्याज दर 07.00% लागू होगी।)		BPLR से 3.00 प्रतिशत कम, न्यूनतम 11.40% p.a.
13	मत्स्य पालन ऋण योजना अंतर्गत सावधि ऋण एवं सावधि ऋण सह केसीसी घटक हेतु (जहां Subvention उपलब्ध होगा वहाँ ब्याज दर 07.00% लागू होगी।)		BPLR से 3.00 प्रतिशत कम, न्यूनतम 11.40% p.a.
14	कृषि आधारभूत संरचना निधि (Agriculture Infrastructure Fund) –		
	अ.	₹2.00 करोड़ तक की ऋण सीमा पर	09.00% p.a.
	ब.	₹2.00 करोड़ से अधिक की ऋण सीमा पर	BPLR से 1.00 प्रतिशत कम, न्यूनतम 13.40% p.a.
15	पीएम कुसुम ऋण योजना (PM KUSUM Scheme) -		
	(i).	For Component B & C :- As applicable to Agriculture Advances. Any subsequent changes thereafter will be applicable accordingly.	
		As per Sancton Limit	Applicable ROI
		For All Limits*	BPLR से 1.00 प्रतिशत कम, न्यूनतम 13.40% p.a.
		*If account is covered under, Rate of Interest will be 9.00%	
	(ii).	For Component A :-	
		BPLR से 4.00 प्रतिशत कम, न्यूनतम 10.40% p.a.	
		*For the portion covered under AIF, the Rate of Interest will be 9.00%	
		For accounts Clasified under MSME:	
		SBS Credit Rating Model	Applicable ROI
		SBS - 1 – 3	BPLR से 4.00 प्रतिशत कम, न्यूनतम 10.40% p.a.
		SBS - 4 – 5	BPLR से 3.00 प्रतिशत कम, न्यूनतम 11.40% p.a.

(अनुलग्नक B)

MSME ऋणों पर प्रभावी ब्याज दरें

01	प्रधानमंत्री मुद्रा योजना – (राशि ₹10.00 लाख तक के मुद्रा ऋणों पर) MUDRA LOANS - Including Retail Trade/Small Business/Professional & Self Employed/SRTO and Exluding Agriculture Term Loan (upto 10.00 Lakhs)				BPLR से 2.00 प्रतिशत कम, न्यूनतम 12.40% p.a.		
02	सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (उत्पादन एवं सेवा में लगी यूनिट, एसआरटीओ सहित हेतु) MSME - Micro Small & Medium Enterprises (Manufacturing & Service including SRTO)						
	क्रं.	स्वीकृत ऋण सीमा अनुसार				प्रभावी ब्याज दर	
	(i).	राशि ₹10.00 लाख तक के ऋणों पर				BPLR से 2.00 प्रतिशत कम, न्यूनतम 12.40% p.a.	
	(ii).	राशि ₹ 10.00 लाख से अधिक तथा राशि ₹ 100.00 लाख तक के ऋणों पर	Credit Rating (SBS Model)	Spread on BPLR	Interest Rate		
			SBS 1-3 (AAA)	-3.00	11.40% p.a.		
			SBS 4-6 (AA)	-2.00	12.40% p.a.		
			SBS-7 (A)	-1.00	13.40% p.a.		
			SBS 8-10 (B)	0.00	14.40% p.a.		
	(iii).	राशि ₹ 100.00 लाख से अधिक के ऋणों पर	Credit Rating (SBS Model)	Spread on BPLR	Interest Rate		
			SBS 1-3 (AAA)	-3.50	10.90% p.a.		
			SBS 4-6 (AA)	-2.50	11.90% p.a.		
			SBS-7 (A)	-1.00	13.40% p.a.		
			SBS 8-10 (B)	0.00	14.40% p.a.		
- CRISIL क्रेडिट रेटिंग एजेन्सी से क्रेडिट रेटिंग करवाने पर 0.50 % की ब्याज दर में छूट क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा प्रदाय की जा सकती है बशर्ते क्रेडिट रेटिंग संतोषजनक होना सुनिश्चित करें। - एसआरटीओ अन्तर्गत बैंक द्वारा उत्पादक कम्पनी/सेवा प्रदाता के साथ किये गये टाय-अप/एमओयु के तहत स्वीकृत प्रकरणों पर अतिरिक्त 0.50% की छूट प्रदाय की जावेगी।							
03	एमपीजीबी अपनी जगह अपना व्यवसाय योजना – (MPGB Apni Jagah Apna Vyavasaya Scheme)						
	(i).	राशि ₹ 10.00 लाख तक के ऋणों पर				BPLR से 2.00 प्रतिशत कम, न्यूनतम 12.40% p.a.	
	(ii).	राशि ₹10.00 लाख से अधिक के ऋणों पर	Credit Rating (SBS Model)	Spread on BPLR	Interest Rate		
			SBS 1 - 3 (AAA)	-3.50	10.90% p.a.		
			SBS 4 - 5 (AA)	-3.00	11.40% p.a.		

	Note:- In case if Collateral Security is offered for more than 50% of loan amount, then concession of 0.50% in rate of interest is available.
--	--

04	एमपीजीबी सरल व्यापार योजना – (MPGB Saral Vapar Scheme)		Credit Rating (SBS Model)	Spread on BPLR	Interest Rate
			SBS 1-3 (AAA)	-4.40	10.00% p.a.
			SBS 4-5 (AA)	-4.00	10.40% p.a.
			SBS - 5 (New to Credit)	-3.50	10.90% p.a.
	Note:- Credit Rating below SBS - 5 not be accepted in New Credit Proposals. Further Concession in Rate of Interest may be considered in the delegation of HLSCC onwards only.				
05	एमपीजीबी डॉक्टर प्लस योजना – (MPGB Doctor Plus Scheme)				
	(i).	राशि ₹10.00 लाख तक के ऋणों पर			BPLR से 4.00 प्रतिशत कम, न्यूनतम 10.40% p.a.
	(ii).	राशि ₹10.00 लाख से अधिक के ऋणों पर	Credit Rating (SBS Model)	Spread on BPLR	Interest Rate
			SBS 1 - 3 (AAA)	-4.00	10.40% p.a.
			SBS 4 - 5 (AA)	-3.50	10.90% p.a.
	Note:- In case, at the time of review, unit's internal rating is below entry level, interest benefit under MPGB Doctor Plus will be withdrawn and internal rating linked pricing will be applicable. However, the product linked pricing may be restored at the time of subsequent reviews, if the limit is upgraded to/falls at/within entry level.				
	In case proponents are providing collateral security, further concession in ROI may be permitted as under:				
	Market value of collateral security against loan amount			Further concession	
	>50%			0.25%	
	Maximum Concession allowed including delegation at RLCC level is capped at 0.50%				
06	एमपीजीबी आस्ति समर्थित ऋण योजना – (MPGB Asset Backed Loan Scheme)		Credit Rating (SBS Model)	Spread on BPLR	Interest Rate
			SBS 1-3 (AAA)	-4.00	10.40% p.a.
			SBS 4-5 (AA)	-3.50	10.90% p.a.
			SBS 6-7 (A)	-1.00	13.40% p.a.
			SBS 8-10 (B)	0.00	14.40% p.a.
Note:- Credit Rating below SBS - 5 not be accepted in New Credit Proposals.					
07	एमपीजीबी सूर्य किरण योजना – (MPGB Surya Kiran Scheme)				

	(i). राशि ₹10.00 लाख तक के ऋणों पर			BPLR से 2.00 प्रतिशत कम, न्यूनतम 12.40% p.a.
	(ii). राशि ₹10.00 लाख से अधिक के ऋणों पर	Credit Rating (SBS Model)	Spread on BPLR	Interest Rate
		SBS 1 - 3 (AAA)	-3.00	11.40% p.a.
		SBS 4 - 5 (AA)	-2.50	11.90% p.a.
	Note:- In case if Collateral Security is offered for more than 75% of loan amount, then concession of 0.50% in rate of interest is available.			

08	MSME SPICE योजना –				
	(i).	राशि ₹10.00 लाख तक के ऋणों पर		BPLR से 4.00 प्रतिशत कम, न्यूनतम 10.40% p.a.	
	(ii).	राशि ₹10.00 लाख से अधिक के ऋणों पर	Credit Rating (SBS Model)	Spread on BPLR	Interest Rate
			SBS 1-3 (AAA)	-4.40	10.00% p.a.
			SBS 4-5 (AA)	-4.00	10.40% p.a.
			SBS - 5 (New to Credit)	-3.50	10.90% p.a.
Note:- Credit Rating below SBS - 5 not be accepted in New Credit Proposals.					
09	MSME GIFT योजना –				
	राशि ₹ 10.00 लाख से अधिक तथा राशि ₹ 200.00 लाख तक के ऋणों पर	Credit Rating (SBS Model)	Spread on BPLR	Interest Rate	
		SBS 1-3 (AAA)	-4.40	10.00% p.a.	
		SBS 4-5 (AA)	-4.00	10.40% p.a.	
		SBS - 5 (New to Credit)	-3.50	10.90% p.a.	
	Note:- Credit Rating below SBS - 5 not be accepted in New Credit Proposals.				
12	प्रधानमंत्री वश्वकर्मा योजना – (PM Vishwakarma Scheme)			5.00%	
13	प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना – (PM SVANidhi Scheme)			9.70%	
14	मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना – (CM Rural Street Vendor Scheme)			9.70%	
15	एमपीजीबी गारंटीड इमर्जेंसी क्रेडिट लाईन योजना – (GECLS - MPGB Guranteed Emergency Credit Line Scheme)			BPLR से 5.15% कम, न्यूनतम 9.25%	
16	प्रधानमंत्री जनधन योजना ओडी – (PMJDY OD)			BPLR से 1.75% कम, न्यूनतम 12.65%	

01. वाणिज्यिक अग्रिम (C & IC) पर प्रभावी ब्याज दरें

क्र.	विवरण	ब्याज दर प्र.व.
i.	स्वीकृत सीमा ₹ 10.00 लाख तक (कार्यशील पूंजी/अल्पावधि ऋण)	BPLR पर, 14.40% p.a.
ii.	स्वीकृत सीमा ₹ 10.00 लाख तक (मियादी ऋण)	BPLR से 0.50% अधिक, 14.90 % p.a.
iii.	स्वीकृत सीमा ₹10.00 लाख और अधिक (उधारकर्ता के खाते की क्रेडिट रेटिंग के अनुसार) इसमें commercial ऋण स्वीकृत सीमा ₹10.00 लाख और ऊपर, निम्न समयावधि के लिए सम्मिलित हैं, के लिये निम्नानुसार लागू रहेगी : (अ) कार्यशील पूंजी/कार्यशील पूंजी मांग ऋण व अल्पावधि ऋण । (ब) सावधि ऋण 3 वर्षों व ऊपर में अदायगी के लिए ।	

Credit Rating (SBS Model)	Rate of Interest (%) p.a.			
	Spread	Working Capital कार्यशील पूंजी डिमांड लोन और अल्पावधि ऋण (3 वर्षों से कम की चुकौती पर)	Spread	सावधि ऋण (3 वर्षों और अधिक की चुकौती पर)
SBS 1-3 (AAA)	0.00	14.40	0.50	14.90%
SBS 4-6 (AA)	1.45	15.85	1.95	16.35%
SBS-7 (A)	1.45	15.85	1.95	16.35%
SBS 8-10 (B)	2.50	16.90	3.00	17.40%

SBS मॉडल में रेटिंग के अनुसार

- SBS 1 to SBS 3 (AAA) अच्छी गुणवत्ता स्तर के ऋण प्रस्ताव
- SBS 4 to SBS 6 (AA) अच्छी गुणवत्ता स्तर पहुंचने की सम्भवाना वाले ऋण प्रस्ताव
- SBS 7 (A) सघन अनुवर्ती/देखरेख में रहने वाले ऋण प्रस्ताव जिन्हें अच्छे गुणवत्ता स्तर पर पहुँचाया जा सके।

(अनुलग्नक: D)

SHG, SHG Members, MFI के अग्रिमों पर प्रभावी ब्याज दरें

01. स्वयं सहायता समूहों को ऋण :

- i. स्वयं सहायता समूह की बचत (Corpus) के विरुद्ध दिये जाने वाले ऋण के लिये

—
BPLR पर, न्यूनतम 14.40 %

- ii. **DAY NRLM अन्तर्गत महिला स्वयं सहायता समूह हेतु :**

S.No.	Particulars	Rate of Interest	Subvention Available
i.	Loan upto Rs.3.00 Lakh	7.00% p.a.	4.50%
ii.	Loan above Rs.3.00 lakh & Upto Rs.5.00 lakh	10.00% p.a.	5.00%
iii.	Loan above Rs.5.00 lakh	At BPLR, at present 14.40% p.a.	Nil
iv.	For all loan limits	At BPLR, at present 14.40% p.a.	Where Subvention is not available

02. स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को व्यक्तिगत ऋण :

1.	एमपीजीबी सखी योजना (MPGB Sakhi Scheme)	BPLR से 2.00 प्रतिशत कम, न्यूनतम 12.40% p.a. for MSME Loans BPLR से 1.00 प्रतिशत कम, न्यूनतम 13.40% p.a. for Agriculture Purpose
2.	एमपीजीबी सखी स्वावलंबन ऋण योजना – (MPGB Sakhi Swavalamban Scheme)	BPLR से 3.00 प्रतिशत कम, न्यूनतम 11.40% p.a. 0.50% additional Relaxation on GI Tagged & Organic Products

03. सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को ऋण :

स्वीकृत ऋण सीमा अनुसार	प्रभावी ब्याज दर
₹ 10.00 लाख तक	BPLR पर, न्यूनतम 14.40% p.a.
₹ 10.00 लाख से अधिक	BPLR से 0.50% अधिक, न्यूनतम 14.90% p.a.

(अनुलग्नक: E)

खुदरा ऋणों पर प्रभावी ब्याज दरें

01	एमपीजीबी व्यक्तिगत ऋण योजना (MPGB Personal Loan Scheme) –		
क्र.	विवरण		प्रभावी ब्याज दर प्र.व.
i.	पूर्ण सुरक्षित		BPLR से 1.50% कम, न्यूनतम 12.90% p.a.
ii.	आंशिक / असुरक्षित		BPLR से 1.00% कम, न्यूनतम 13.40% p.a.
iii.	वैधानिक लिखित टाई अप के अन्तर्गत जिसमें कम्पनी / कार्पोरेट द्वारा वसूली का वचन पत्र दिया गया हो		BPLR से 2.00% कम, न्यूनतम 12.40% p.a.
Iv	बैंक के स्टाफ सदस्यों हेतु		BPLR से 2.50% कम, न्यूनतम 11.90% p.a.
	नोट: ब्याज दर में शिथिलता – • TIE UP के तहत बहुराष्ट्रीय कम्पनी के कार्मिकों कां 0.50 प्रतिशत कर छूट। • शहडोल क्षेत्र के कालरी कर्मचारियों एवं नर्मदापुरम क्षेत्र की पंचमढ़ी शाखा के SADA एवं छावनी परिषद के कर्मचारियों हेतु ब्याज दरें रेटिंग के अनुसार निम्नानुसार लागू होगा।		
	20 – 30 अंक	BPLR से 1.00% कम, न्यूनतम 13.40% p.a.	
	31 – 35 अंक	BPLR से 1.50% कम, न्यूनतम 12.90% p.a.	
	35 से ऊपर अंक	BPLR से 2.00% कम, न्यूनतम 12.40% p.a.	
	नोट:– योजनान्तर्गत महिलाओं एवं स्टाफ सदस्यों को ब्याज दर में पृथक से कोई शिथिलता देय नहीं होगी।		
02.	एमपीजीबी वाहन ऋण योजना (कृषक वाहन ऋण सहित) (MPGB Vehicle Loan Scheme including Agriculture Vehicle Loan Scheme) –		
	वाहन	विवरण	ब्याज दर
	दो पहिया वाहन	CIC स्कोर 760 अथवा उससे अधिक	BPLR से 2.50% कम, न्यूनतम 11.90% p.a.
		CIC स्कोर 725 से अधिक तथा 759 तक	BPLR से 2.40% कम, न्यूनतम 12.00% p.a.
		CIC स्कोर 725 अथवा उससे कम	BPLR से 2.00% कम, न्यूनतम 12.40% p.a.
	चार पहिया वाहन	CIC स्कोर 760 अथवा उससे अधिक	BPLR से 4.50% कम, न्यूनतम 9.90% p.a.
		CIC स्कोर 725 से अधिक तथा 759 तक	BPLR से 4.40% कम, न्यूनतम 10.00% p.a.
		CIC स्कोर 725 अथवा उससे कम	BPLR से 4.00% कम, न्यूनतम 10.40% p.a.
03	एमपीजीबी सम्पत्ति विरुद्ध ऋण योजना – (MPGB Loan Against Property Scheme)		

विवरण	ब्याज दर
CIC स्कोर 760 अथवा उससे अधिक	BPLR से 2.00% कम, न्यूनतम 12.40% p.a.
CIC स्कोर 725 से अधिक तथा 759 तक	BPLR से 1.90% कम, न्यूनतम 12.50% p.a.
CIC स्कोर 725 अथवा उससे कम	BPLR से 1.50% कम, न्यूनतम 12.90% p.a.

04	एमपीजीबी आवास ऋण योजना (प्रधानमंत्री आवास 2.0 योजना सहित) – (MPGB Housing Loan Scheme including PMAY 2.0 Scheme)		
	ऋण स्वीकृत सीमा	विवरण	ब्याज दर
	स्वीकृत सीमा राशि 25.00 लाख तक	CIC स्कोर 760 अथवा उससे अधिक	BPLR से 4.80% कम, न्यूनतम 9.60% p.a.
		CIC स्कोर 725 से अधिक तथा 759 तक	BPLR से 4.70% कम, न्यूनतम 9.70% p.a.
		CIC स्कोर 725 अथवा उससे कम	BPLR से 4.30% कम, न्यूनतम 10.10% p.a.
	स्वीकृत सीमा राशि 25.00 लाख से अधिक	CIC स्कोर 760 अथवा उससे अधिक	BPLR से 4.70% कम, न्यूनतम 9.70% p.a.
		CIC स्कोर 725 से अधिक तथा 759 तक	BPLR से 4.60% कम, न्यूनतम 9.80% p.a.
		CIC स्कोर 725 अथवा उससे कम	BPLR से 4.20% कम, न्यूनतम 10.20% p.a.
	नोट: मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना अन्तर्गत ब्याज दरें स्वीकृति के समय लागू ब्याजदर के अनुसार लागू होगी।		
05	एमपीजीबी विद्यावर्धिनी उच्च शिक्षा ऋण योजना (Education Loan Scheme) –		
	Loan Sanction Limit	Rate of Interest (%) p.a.	
	Upto Rs. 4.00 lakh	2.50% below BPLR, at present 11.90% p.a.	
	Above Rs.4.00 lakh & upto Rs.7.50 lakh	1.50% below BPLR, at present 12.90% p.a.	
	Above Rs.7.50 lakh	1.00% below BPLR, at present 13.40% p.a.	
	छूट (Relaxation) :		
	i. व्यावसायिक शिक्षा जैसे इंजिनियरिंग/मेडिकल/मेनेजमेंट आदि हेतु प्रदत्त ऋण 0.50 प्रतिशत ब्याजदर में छूट हेतु पात्र होंगे।		
	ii. महिला हितग्राही को प्रदत्त ऋण/अग्रिमों पर लागू ब्याजदर में 0.25 प्रतिशत छूट की पात्रता रहेगी।		
	iii. अध्ययनकाल (During the Study)/अनुग्रह अवधि (Moratorium period) के दौरान प्रभारित ब्याज का नियमित भुगतान करने (पुनर्भुगतान प्रारंभ होने के पूर्व) पर 01 प्रतिशत ब्याज छूट की पात्रता रहेगी। यह छूट केवल अध्ययनकाल/अनुग्रह अवधि के दौरान ही लागू रहेगी। यह ब्याज छूट त्रैमासिक आधार पर ऋणी के खाते में वापस जमा की जावेगी।		
	iv. उक्त छूट के अतिरिक्त निम्न प्रकरणों में अतिरिक्त 0.50 प्रतिशत ब्याजदर की छूट प्रदान की जावेगी –		

	■ जहां ऋण राशि ₹ 20.00 लाख से अधिक हो एवं जहां 100 प्रतिशत से अधिक सम्पार्श्विक प्रतिभूति (Based on realizable value of security) ऋण राशि एवं अनुग्रह अवधि के दौरान होने वाले उपार्जित ब्याज (Accrued Interest) को कवर करने हेतु उपलब्ध हों। या ■ RBI/NABARD द्वारा घोषित ऋण की कमी (Credit Deficient) वाले जिलों के विद्यार्थियों को प्रदत्त शिक्षा ऋण पर, ऋण सीमा या सम्पार्श्विक प्रतिभूति का विचार किए बिना।	
	नोट:- - ऋणी से इस आशय का घोषणा पत्र प्राप्त करें कि सुरक्षा प्रतिभूति में कोई भी कमी होने पर वार्षिक पुनरीक्षण के समय ब्याज दर में छूट को हटा दिया जावेगा। - उपरोक्त बिंदु क्रमांक a से d तक की सभी छूट को मिलाकर अधिकतम 2.50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा सकेगी। - ब्याजदर में क्षेत्रीय प्रबंधक, महाप्रबंधक एवं अध्यक्ष महोदय के प्राधिकार के तहत निर्धारित ब्याजदरों में अतिरिक्त छूट प्रदान की जा सकेगी। - चुकोती अवकाश/ऋण अनुग्रह अवधि के दौरान ब्याज साधारण दर पर मासिक आधार पर प्रभारित किया जावेगा। (For application of simple interest, the field "Interest on Interest Demand" on "S" Option in "ACM" menu should be "NO".) - पुनर्भुगतान प्रारंभ होने की तिथि से सामान्य ब्याजदर प्रभारित होगी। - अध्ययन अवधी एवं अनुग्रह अवधी के दौरान पुनर्भुगतान प्रारंभ होने तक ब्याज राशि का भुगतान ऋणी छात्र/सहऋणी हेतु स्वेच्छिक (Optional) हैं। अनुग्रह अवधी के दौरान प्रभारित Accrued/unpaid Interest को मूल राशि में शामिल कर बकाया शेष राशि की समीकृत मासिक किश्तों (EMI) का निर्धारण अनुग्रह अवधी समाप्ति पर किया जाना चाहिए। ऋणी छात्र/सह ऋणी को स्वीकृति पत्र में इस संबंध में स्पष्टता की जाना चाहिए कि स्वीकृति पत्र में उल्लेखित समीकृत मासिक किश्तें अनुमानित (Notional) हैं। - नियमित समीकृत मासिक किश्तें प्रारंभ होने पर ब्याजदर चक्रवर्ती दर (Compounded rate) आधार पर लागू होगी। (For application of compounded interest rate, the field "Interest on Interest Demand" on "S" Option in "ACM" menu should be "YES") - भारत शासन/राज्य शासन द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों, विदेश में शिक्षा हेतु अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के छात्रों को निर्धारित शर्तों व निबंध के तहत शिक्षा ऋणों पर ब्याज अनुदान सहायता उपलब्ध है।	
06	एमपीजीबी टॉप अप ऋण योजना (MPGB Top Up Loan Scheme) -	आवास ऋण में लागू ब्याज दर से 0.50% अधिक
07	घरेलू स्वच्छता गृहों के निर्माण/नवीनीकरण, घरेलू स्तर पर जल आपूर्ति में सुधार सहित पेयजल सुविधा एवं स्वच्छता सुविधाओं हेतु वित्तपोषण की योजना (WASH Scheme) -	आवास ऋण में लागू ब्याजदर अनुसार प्रभावी ब्याजदर – BPLR से 4.30% कम, न्यूनतम 10.10% p.a.

(अनुलग्नक: F)

अन्य व्यक्तिगत ऋणों पर लागू ब्याज दरें

01	शाखा परिसर के मकान मालिकों को शाखा परिसर की लीज डीड के विरुद्ध प्रदत्त अग्रिम:	
	हमारी बैंक से रजिस्टर्ड लीज डीड सम्पादित की गई हैं एवं जिसकी अवधि न्यूनतम अवधि 10 वर्ष हो –	BPLR से 0.50% कम, न्यूनतम 13.90% p.a.
	नोट: उपरोक्त ब्याज दरें प्रभावी तिथी के बाद नवीन स्वीकृत ऋणों पर ही लागू होंगे।	
09	बैंक भवन मालिक को बैंक भवन निर्माण के लिए ऋण –	BPLR से 1.00% कम, न्यूनतम 13.40% p.a.
10	आकस्मिक ओवर ड्राफ्ट/आकस्मिक ओवर लिमिट होने पर ब्याज दरें :	
	चालू/बचत जमा खाते में यदि आकस्मिक ओवर ड्राफ्ट स्वीकृत किया जाता हैं, प्रभावी ब्याज दर	BPLR से 4.75% अधिक, न्यूनतम 19.15% p.a.
	उन नगद उधार सीमा खातों में जिनमें ओवर लिमिट/ओवर ड्राफ्ट हेतु अनुमत किया जाता है, प्रभावी ब्याजदर	लागू ब्याज दर से 2% अधिक।
11	व्यक्तिगत ऋण (Paper Security के विरुद्ध ऋण)	
(अ)	NSC/KVP/LIC Policies के विरुद्ध ऋण	14.15% p.a.
(ब)	Ware House Receipt के विरुद्ध ऋण	
	i. किसानो के लिए	BPLR से 1.00% कम, न्यूनतम 13.40% p.a.
	ii. व्यवसायी के लिए	
(स)	स्वयं की सावधि जमा के विरुद्ध ऋण	
	i. यदि सावधि जमा स्वयं जमाकर्ता के नाम से हो, को ऋण प्रदाय किया जा रहा हो, प्रभावी ब्याजदर –	सावधि जमा पर देय ब्याज दर से 1.00 % अधिक
	ii. यदि सावधि जमा पर किसी अन्य (तृतीय पक्ष) को ऋण दिया जा रहा हो, प्रभावी ब्याजदर –	सावधि जमा पर देय ब्याज दर से 2 % अधिक या BPLR (At present 14.40%) से 01% कम , जो भी अधिक हो, लागू रहेगी
	iii. यदि सावधि जमा स्टॉफ/पूर्व स्टॉफ के नाम से हो तथा ऋण स्वयं या मृतक स्टॉफ के स्पाउस द्वारा लिया जा रहा हों,	सावधि जमा पर देय ब्याज दर से 1.00 % अधिक
(द)	चांदी आभूषण के विरुद्ध ऋण	BPLR से 1.00% कम, न्यूनतम 13.40% p.a.
(इ)	स्वर्ण एवं स्वर्ण आभूषण के विरुद्ध ऋण	BPLR से 5.00% कम, न्यूनतम 9.40% p.a.

12	सोलर आफ ग्रीड सिस्टम के लिये ऋण	BPLR से 2.00% कम, न्यूनतम 12.40% p.a.
13	प्रधानमंत्री सुर्यघर मुफ्त बिजली योजना अन्तर्गत एमपीजीबी रूफटॉप सोलर पैनल फायनेंस योजना (MPGB Rooftop Solar Panel Finance Scheme under PM Surya Ghar Muft Bijali Yojana) &	
i.	Upto 2.00 Lakh	The Interest rate has been pegged at 0.50% above the prevailing Repo rate decided by the Reserve Bank of India from time to time. At present Repo Rates 6.00%, so ROI will be 6.50% p.a.
ii.	Above 2.00 Lakh and upto 10.00 Lakh	For Home Loan Customers: Same as applicable to new Home Loans For Non-Home Loan Customers: Home Loan ROI + 100 bps p.a.
iii.	Above 10.00 Lakh	2.50% below BPLR, at present 11.90% p.a.